



SEE MORE JESUS • WANTTOSEEMORE.COM

प्रेरितां दा जवाब — स्ट्रॉंग नंबरों साहित इक्क बाइबल अध्ययन

सवाल ते जवाब — विश्वास करो, तोबा करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा लैओ

मूलभूत बाइबली सिद्धांत — यीशु मसीह दा सुसमाचार

सादे शब्दें च

परमेश्वरे तिजी बणाया, ते परमेश्वर तिजें कन्नै प्यार करदा। हर इक बंदे कोई ना कोई गलती कीती ऐ, ते ओह गलती स्हांगी परमेश्वरा थमां लग करी दिन्दी ऐ। परमेश्वरे अपने पुतर, यीशु मसीह गी भेजेआ। यीशुए कदी कोई गलती नेई कीती, पर उ स्हाड़ियां गलतियां दा मोल चुकाने आस्तै मरेआ। फिरी परमेश्वरे उसी मुर्दयां चा जिलाया, ते उ हुण जींदा ऐ। ऐ ऐ जो तिजें करना चाहिदा। इस खरी खबरा पर अपने सारे दिले कन्नै विश्वास कर। अपने गलत राहां थमां मुड़ जा — बाइबल इसी पश्चाताप बोलदी ऐ। बपतिस्मा ले — यीशु मसीह दे नां च पाणिये दे थल्लै जा — ते परमेश्वर तेरे पाप माफ करी देगा। परमेश्वर तिजें अंदर रौह्ने आस्तै अपना पवित्र आत्मा देगा। फिरी हर रोज यीशुए दे पिच्छे चलदा रौह, होर विश्वासियां कन्नै रली-मिली करी, अपनी जिंदगिया दे अंत तगर। उ तेरी रक्षा करदा रौहणा, ते तिजें ऐसी जिंदगी देगा जेहड़ी कदी नेई मुकदी।

ओपनिंग वर्ड

मित्रा, सारेआं शा जरूरी सवाल उस दिन पुछ्या गा जिस दिन कलीसिया दा जनम होया। जिनी लोकें सच्च सुणा, उनेंगी दिले तक चोट लगगी, ते उनेआं रोआ के, असां क्या करवें? उन्हां गी न सिर्फ कुछ महसूस करने गी बोल्या गा, ते न ई कोई प्रार्थना बोलणे गी ते फिरी पैह्ला जिह्वां जिणे गी। उन्हां गी इक जवाब दिता गा जिसदे अंदर इक दरवाजा हा, ते उस दरवाजे च इक कदम हा जो पार करना हा। विश्वास करो — अपने सारे दिले सोगी — जो यीशु मसीह तुसां दे पापां खातर मरा ते मुड़ी मरने आं जी उठा, कीजकि विश्वास परमेश्वरे दे वचन गी सुणने शा औंदा ऐ। पछताओ — अपने सारे दिले सोगी अपने पापां शा मुड़ो। यीशु मसीह दे नां च बपतिस्मा लओ अपने पापां दी माफ़ी खातर — उंदे सोगी दफनाए जाओ, ते नमी जिंदगी जिणे खातर मुड़ी उठाए जाओ। पवित्र आत्मा दा दान लओ — कीजकि जिस कोई गे मसीहे दा आत्मा नई ओ उंदा नई ऐ। फिरी दरवाजे पर ई मत रुको: प्रेरित बी बचाए गेआं गी सिखाए दे जो उंदे सोगी अग्रे चलदे रौह, ते अंत तक धीरज रखन — कीजकि उद्धार सच्चाई च शुरू होंदा ऐ, सच्चाई च अग्रे चलदा ऐ, ते सच्चाई च ई खत्म होंदा ऐ। इक प्रार्थना इक आच्छी शुरुआत ऐ, ते तुसां इसी घड़ी ई इसगी बोली सकदे ओ; पर जो कुछ बी प्रेरितें जवाब दिता उसगी सारा सुणो, ते उसगी करो, ते तुसां बचाए जाओगे। एहदे ई रस्ता ऐ अंदर आने दा। इसगी अपने आपू खातर पढ़ो, ते इसपर चलो।

ऐ अध्ययन जवाब दिते तिन्न सवाल:

1. जिसलैई लोक हृदयें च छेदे गे ते चिल्लाए, असां क्या करना चाहिदा, तां प्रेरितें कुनी जवाब दिता?
2. दिले च विश्वास करने ते मुँरा कन्नै अंगीकार करने दा कुरा मतलब की ऐ, ते यीशु मसीह दे नां च बपतिस्मा की करदा ऐ?

3. मसीह असां दे पापां गी धोने आस्तै क्या दुख सहा, कने पवित्र आत्मा दा दान कुसगी वादा कीता गेआ ऐ?

I. सवाल — भाईयो ते मदो, असां क्या करचां?

प्रेरितां 2:36 एल्हेरेलेइ, इस्राएलेरे सारे लोकन पतो लगगे, कि परमेशरे, यीशु जै तुसेई क्रूसे पुड़ चाढ़ो तै प्रभु भी कियो ते मसीह भी कियो।” (37) एना गल्लां शुन्तां तैन बड़ो एसास भोव कि तैना पापिन, तैखन तैनेई पतरसे ते होरि प्रेरितन सेई ज़ोवं, “हे दूलाव अस कुन केरम?”

उनगे दिलें च चोभ लगी --> हे भाईयो, असां क्या करना चाहिदा?

II. आधार — मसीह मरेआ, ते तेरा खूने पापां थमां धोणा

A. रोमियो 5:8 पन परमेशरे अपनो महान प्यार एन्तरे बांदो कियो, कि ज़ैखन असां पापी थिये तैखन मसीह इश्शे लेइ मरो।

जदू असां हाले पापी थे --> मसीह असां आस्तां मरेआ।

B. प्रकाशित 1:5 ते यीशु मसीहेरे तरफां, जै वफादार गवाह ते मुड़दन मरां ज़ींतो भोने बालन मरां पेइलोए त कने धेरतरे राजां केरो प्रधाने तुसन अनुग्रह ते शान्ति मैलती राए। यीशु मसीहे असन सेइ प्यार कियो, त कने तैने अपने खूने सेइ अस पापन करां छुटाए।

[G3068 louo ■]

वफादार गवाह + मुर्दे लोकां चा पैह्ला जन्मेआ --> ओह जिह्ने असां सेती प्यार कीता --> ते असां गी असाड़े पापां थमां अपने लौहु सेती धोता।

C. इफिसियों 1:7 परमेशरेरे बड़े अनुग्रहेरे मुताबिक मसीहेरे खूने बगाने सेइ असन छुटकारो मैल्लो, मतलब इश्शे पाप माफ़ भोए।

जिसदे च्या असां उंदे खून राहीं छुटकारा मिलदा ऐ = पापां दी माफी।

(म्हारे निजी विचार — छुटकारा ते पापें दी माफी उसदे इच् आन। एह इस करता आसां उसदे इच् बपतिस्मा लैदे आं: उ लहू जेह आसां जो धोंदा ऐ, ते जेह माफी एह खरीददा ऐ, उ ओहिये इक् जणे दे इक् मिलदी ऐ जिसदे इच् आसां बपतिस्मा लैदे आं।)

D. Isaiah 52:14

उंदा मुँह कुसैं बी मैनुं थमां जादा बिगड़या था --> ते उंदी शकल आदमी दे पुत्रें थमां बी जादा।

E. Isaiah 50:6

मैं अपनी पीठ मारणे वालें गी दित्ती + अपने गाल बाल उखाड़णे वालें गी दित्ते --> मैं अपना मूं शरम अते थूकणे थमां नेई लकाया।

F. Psalm 22:14

मेरी सारी हड्डियां जोड़ां थमां टूटी गेइयां --> उनेह मेरे हाथ अते पैर छेदी दित्ते --> उनेह मेरे कपड़े बंडे + मेरे वस्त्रां पर पासा सुट्टा।

G. Isaiah 53:4

उरा अपराधरां करने से उ जख्मी होया + उरा दोषरां करने से उ कुचल्या + उरे घाएं ने आसां ठीक होई गे।

H. मत्ती 27:28 तैनेई तैसेरां लिगड़ां खोल्लां ते तैस अक लाल रंगेरो चोगो लुवाव। (29) फिरी कंटां केरू ताज तैसेरे दोग्गे पुड़ रखवू, ते तैसेरे देइने हथ्ये मां अक निरैठरी लैठ दित्ती, ते तैस कां मथ्यो टेकतां तैसेरी हासी बनाने लगगे, ते ज़ोने लगगे, “हे यहूदी केरे राजा नमस्कार।” (30) तैना तैस पुड़ थुकते ते सोटी सेइ तैसेरे दोग्गे पुड़ बाते थिये।

उंदे सिरे पर कंडयां दा ताज --> उन्हां उसदे उप्पर थुक्या + उंदे सिरे पर मारया।

I. लूका 22:44 ते तै परेशान भोइतां होरि जादे दिले सेइ प्रार्थना केरने लगगे ते तैसेरो पिसीनो बुझा कि खूनेरे बडे-बडे तेप्पु तल्ले झड़ते थिये।

उंदा पसीना लौहदे बडे-बडे खून दे बूदां बाणा जमीना पासे थल्ले पेंदा हा।

J. यूहन्ना 19:34 पन सिपेहिन मरां एक्के अपनि बलम एन्तां यीशुएरे देल्लोड़ी मां बाई ते तैखने खून त पानी बगने लगू।

हिँव घरहे ने उमरे पामे ठुँ हिँव --> उे झँट छिँवें लेंवु उे पाटी निबलिआ।

(म्हारे निजी विचार — इसजो होल्ले-होल्ले पढ़ा, ते जाणा जे ईह तुसां लेई ही। जेहड़े मुँहए तारे बणाए, से पछाणे थमां बाहर बिगाड़या गया। जेहड़ी पिट्टा सारी चीजां जो थम्ही राख्दी, से कोड़े कन्नै खोल्ली गई। जेहड़े हथ्यें कोढ़ियै जो ठीक कीता, उन्हां जो लोहे कन्नै छेदेआ गया। उसदियां हड्डियां गिणने जोगियां बाहर आई गियां। इक्को कील लगाने थमां पैह्ला ही पसीना खून सांगी टपकेआ। उह जबरन दबाया नी गया: उसनै अपनी पिट्टु अपनी मर्जी कन्नै दित्ती; उसनै अपना मुँह नी लुकाया। हर कोड़ा तुंहाड़ा पाप हा जेहड़ा उस उप्पर रख्या गया, हर जख्म तुंहाड़ी बुराई ही, हर टिपका तुंहाड़ा कर्ज हा। ते जिसलै ईह सम्पूर्ण होई गया, उसदी बगल थमां खून ते पाणी बाहर आया — खून तुसां जो धोणे लेई, ते पाणी तुसां जो उसदे च दफनाणे लेई। तां जिसलै तुसां जो पश्चाताप करने ते बपतिस्मा लैने जो बोल्या जांदा ऐ, तां तुसां थमां कोई मुशकिल कम्म करने जो नी बोल्या जांदा। तुसां थमां गोड्डे टेकी करी ईह लैने जो बोल्या जांदा ऐ, जिसदी कीमत उसनै एह सब कुछ देइयै चुकाई।)

III. प्रभु यीशु मसीह पर बिश्वास करा — ते अपने मुरां कन्नै ओसदा अंगीकार करा

A. Genesis 15:6

ओसने परमप्रभु पर बिश्वास कित्ता --> ते ओसने ऐ ओसदे धार्मिकता समझेआ।

B. रोमियो 4:3 पवित्रशास्त्र कुन जोते, इन कि “अब्राहमे परमेश्वरे वादन पुड़ विश्वास कियो, ते तै तैसेरेलेइ धार्मिकता गनो जेव।”

अब्राहम गे परमेश्वरे पर बिश्वास किता --> ते ऐ ओसदे धार्मिकता समझेआ गेआ।

C. Numbers 21:8

जेहड़ा-जेहड़ा डंगेआ गेआ, जिसलै ओ उस पासे तक्कदा --> ओ जिन्दा रँहदा।

D. यूहन्ना 3:14 जेन्चरे मूसा सुनसाने मां (परमेश्वरे लोकन बचानेरे लेइ पितल सेइ बनोरो) सप (खंभे पुड़) उच्चे पुड़ चढ़ाव, तेन्चरे एन जरूरी आए कि (अवं) मैनेरू मट्ठू भी उच्चे पुड़ चढ़ा गाए। **[G4100 pisteuo ■]** (15) ताके जै कोई तैस पुड़ विश्वास केरे, तैस हमेशारी जिन्दगी मैल्ले।” (16) “किजोकि परमेश्वरे दुनियारे लोकन सेइ एत्रो प्यार कियो कि तैनी अपनू अक्के मट्ठू दिचू, ताके जै कोई तैस पुड़ विश्वास केरे, तै नाश न भोए, बल्के हमेशारी जिन्दगी हासिल केरे।

जिस तरह मूसे न सप्प उच्चा कितेआ था --> उसी तरह मनुक्खे दे पुत्रे गी उच्चा कीता जाणा जरूरी है --> जेहड़ा कोई उस पर भरोसा करग, ओ नाश नि होग, बल्कि हमेशा दी जिन्दगी पाग।

(मेरे निजी विचार — एह दोनु गल्लां कठ्ठी रखखो ते इनगी शिक्षा लैणे दिओ। जंगले च, मरणे आळे लोकां गी इलाज कमाणे गी नेई बोलेआ था। उनगी बोलेआ था कि श्रद्धा सेती तक्खो जित्यु परमेश्वरे बल्ली पर चढ़ाया था — ते ओह जिन्दे रे। यीशु आखदा कि ओह बल्ली उंदे अपने कूसे दा चित्र था। मन्त्रणा ई तक्का है। कोई बी बंदा किश्शे गल्ला थमां पछतावा करने थमां या किश्शे हुकम गी मन्त्रणे थमां पैह्ले, ओहदे पूरे मने सेती चढ़ाये गे उस बंदे गी तक्खणा जरूरी है, ते उंदे पर भरोसा रखणा। ते अब्राहमे गी देखो: ओह्ले मन्त्रेआ, ते परमेश्वरे ओहदे लेई ओहदी नेकी समझी — व्यवस्था थमां पैह्ले, कोई बी रीति-रस्म थमां पैह्ले। श्रद्धा ई सारे गल्लां दी शुरुआत है। पर देखो कि अगले पदां च श्रद्धा किन्त्रे फुर्ती सेती हुकम मन्त्रणे बड़ी बदलदी है — उसी रात, उसी घड़ी।)

E. रोमियो 10:8 पन पवित्रशास्त्र इन जोते “परमेश्वेरू वचन तेरे नेड़े, ते तेरे ऐशी मां ते मने मां आए,” इन तैन वचने जैन असन परमेश्वरे पुड़ विश्वास केरनेरे बारे मां जोते, जेसेरो अस प्रचार केरतम। **[G3670 homologeo ■]** (9) अगर तू अपने ज़बाना यीशुए, प्रभु जैनतां मन्त्रस ते अपने दिल सेइ विश्वास केरस, कि परमेश्वरे तै मुड़दन मरां जीतो कियो, त तीं परमेश्वर पक्की मुक्ति देलो। (10) किजोकि इश्शे विश्वासेरे ज़िरिये सेइ अस परमेश्वरेरी नज़री मां धर्मी भोतम, ते इश्शे इकरार केरने सेइ मुक्ति मैलोरीए।

अपणे मुँरा कन्त्रे प्रभु यीशुए गी अंगीकार कर + अपणे दिले च विश्वास कर जे परमेश्वरे उसी मुर्दयां चा जिलाया --> तां तूं उद्धार पाई लेंगा।

F. रोमियो 10:13 जेन्चरे पवित्रशास्त्र जोते, “जै कोई प्रभुएरू नवं घिन्नेलो, तैस मुक्ति मैलेली।”

जेन्चरे पवित्रशास्त्र जोते, “जै कोई प्रभुएरू नवं घिन्नेलो --> तैस मुक्ति मैलेली.

G. रोमियो 10:17 एल्हेरेलेइ मसीहरे बारे मां सन्देश शुत्रेरे बगैर कोई भी तैस पुड़ विश्वास न केरि बटे।

विश्वास सुनणे था औंदा --> ते सुनणा परमेश्वरे दे वचने था होंदा।

H. प्रेरितां 16:29 तैखन तै दीयो बैलतां अन्तर जेव, ते पौलुसे ते सीलासेरे पावन पुड़ पेव, **[G4100 pisteuo ■]** (30) फिरी तैनी तैना बेइर आने ते जोने लगो, “जनाब अवं कुन केरि, कि मेरी मुक्ति भोए?” (31) तैनेई ज़ोवं, “प्रभु यीशु मसीह पुड़ विश्वास केर, त तीं ते तेरे टब्बरे पापन करां मुक्ति मैल्लनीए।” (32) ते तैनेई तैस त तैसेरे टब्बरे प्रभुएरू वचन शुनाव। (33) तैखने तैन राती पौलुस ते सीलास नेइतां तैन केरे ज़खम धोए, ते तैनी तैसेरे सारे टब्बरे बपतिस्मो नीयो।

साहबो, मैं बचणे गी क्या करनूं? --> प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखखो --> ते ओह ते उंदे सारे घरे आळे झट्ट बपतिस्मा लैते।

(मेरे निजी विचार — सारी बाइबल च सिर्फ दो बारी ई सवाल एहदे तरीके कोला पुछेआ गा: एक्को फिलिप्पी दी जेल च, ते दुज्जा पिन्तेकुस्त दे बखत प्रेरितां दे कम्मां च। दोनों जवाब कठे रखखी लो। पिन्तेकुस्त आळे लोकां न पैह्ले ई सुणेआ ते मन्त्रेआ था — इस करी उंदे दिल विद्धे गे — ते इस करी पतरस अगले कदम कोला शुरू होया: पछताओ, ते बपतिस्मा लो। जेल दे रखवाळे कुछ नि जाणदा था, इस करी पौलुस पैह्ले कदम कोला शुरू होया: भरोसा करो — ते फिरी उसने प्रभु दा वचन उसगी सुणाया, ते उसी रात दे बखत ओ आदमी बपतिस्मा लैता गा। दो शुरुआतां, इक्को रस्ता। भरोसा करना बपतिस्मे दा विरोधी नि है, ते बपतिस्मा भरोसे दा विरोधी नि है; ईमान ओ दिल है जेहड़ा हुकम मन्त्रदा है, ते उसी रात दा बखत ई काफी है।)

I. इब्रानियों 11:6 किजोकि विश्वासेरे बगैर परमेश्वर खुश केरनो नामुमकिने, बस्सा रोडू एने कि परमेश्वरे कां एजने बालन विश्वास कियोरो लोड़े कि परमेश्वर आए, परमेश्वर तैन ज़ैना तैस सच्चैई सेइ तोपतन फल देते।

किजोकि विश्वासेरे बगैर परमेश्वर खुश केरनो नामुमकिने --> बस्सा रोडू एने कि परमेश्वरे कां एजने बालन विश्वास कियोरो लोड़े कि परमेश्वर आए.

IV. जवाब — मन फिराओ, बपतिस्मा लेओ, पवित्र आत्मा प्राप्त करो

प्रेरितां 2:38 पतरसे तैन सेइ ज़ोवं, “पापन करां मनफिराथ ते तुसन मरां सारे यीशु मसीहरे नंवे सेइ बपतिस्मो घिन्ना, त परमेश्वर तुसन माफ़ केरेलो ते पवित्र आत्मा तुसन इनामे मां मैलेली। **[G859 aphasis ■]** **[G907 baptizo ■]** **[G3340 metaneo ■]** (39) एल्हेरेलेइ कि ए वादो तुसन त तुश्शी औलादी सेइ आए ते तैन सेभन सेइ ज़ैना दूर-दूर रातन, ते ज़ैन इश्शो प्रभु परमेश्वरे एप्पू कां कुजाते।”

पछताओ + यीशु मसीह दे नाएँ पर बपतिस्मा लैओ पापां दी माफी दे लेइ --> तुसँ पवित्र आत्मा दा दान हासल करगे।

V. पश्चाताप करो

A. प्रेरितां 3:19 बस्सा पापन करां मनफिराथ ते परमेश्वरे पासे फिरा ते तै तुश्शे पाप माफ़ केरेलो, ते परमेश्वरेरी तरफां तुश्शे लेइ परमेश्वरे तरफां रोड़े दिहाड़े एज्जेले।

पश्चात्ताप करा + बदलो --> ताकि तुसानरे पाप मिटी जा।

B. लूका 13:3 अवं तुसन सेइं ज़ोताई कि, अगर तुस भी पापन करां मन न फिराले त सब एन्चरे नाश भोनेथ।

जे उमीं उषा ठलीं वठेते --> उमीं माते ही छिमे उठ्ठां ठाम्म वे नाछेते।

C. 2 कुरिन्थियों 7:10 किजोकि परमेशरेरे भेक्तरों दुःख एरी पसतावो पैदा केरते ज़ैस सेइं मुक्ति मैलतीए, फिरी तैस सेइं पसतानू न पे, पन दुनियारो दुःख हमेशारी मौत पैदा केरते।

किजोकि परमेशरेरे भेक्तरों दुःख एरी पसतावो पैदा केरते ज़ैस सेइं मुक्ति मैलतीए --> पन दुनियारो दुःख हमेशारी मौत पैदा केरते।

(मेरे निजी विचार — एह नि समझो कि एह कोई छोटा शब्द ऐ, जो इक बरी बोलेआ ते मुक्केआ। पश्चात्ताप करो, ते इस्से जेहे शब्द, सारी बाइबल च इक सौ बारह बरी गूजदे न — पुराने नियम च छियालीह बरी, ते नमें नियम च छियासठ बरी। नबियां दी पुकार "फिरो, फिरो" थमां लेइयै यूहन्ना दी पुकार "पश्चात्ताप करो" तक, प्रभु आपे थमां लेइयै प्रेरितां तक, जी उठे मसीह दे कलीसियां गी लिखने तक — इक्को सद्दा उत्पत्ति थमां प्रकाशितवाक्य तक चलदा ऐ: फिरो। परमेश्वर कदी बी लोकां गी इस पासै बुलाना बंद नि कीता। ते कोई बी इस करने थमां रुक नि सकदा।)

VI. मसीह च बपतिस्मा लो पापां दी माफी लेइ

A. प्रेरितां 22:16 हुनी चिर किजो लातस? उठ, ते बपतिस्मो ने ते तेरे पाप माफ़ भोन।" [G907 baptizo ■]

उठ, ते बपतिस्मा लेह, ते प्रभुए दा नां लेइयां आपणे पापां गी धोई छड्ड।

B. रोमियो 6:4 ज़ैखन असेई बपतिस्मो नीयोरों थियो तैखन अस मसीह सेइं साथी मरे ते दबे जे, ताके अस भी नव्वीं ज़िन्दगी ज़ीम, ज़ेन्चरे मसीह बाजी परमेशरेरी महिमा सेइं मुड़दन मरां ज़ीतो कियो।

उसदे साथ बपतिस्मे राहीं मौत मां गाड़े गे -- तेन्दुए तरां असां भी नमीं ज़िंदगिया रे चलणे लगमां।

C. कुलुस्सियों 2:12 ते तैस्से सेइं साथी बपतिस्मे मां दबे जे, ते तैस्से मां परमेशरेरी शेक्ति पुड़ विश्वास केरतां, ज़ेने तै मुड़दन मरां ज़ीतो कियो, तुस भी तैस सेइं साथी ज़ीते कियो।

बपतिस्मे मां उसदे साथ दबाया गया --> परमेश्वर दी शक्तिया दे विश्वासे राहें उसदे साथ जींदा कीता गया।

D. 1 पतरस 3:21 पुराने वक्ते मां तैन केरि मुक्ति हुना इश्शे लेइ ज़ैखन अस बपतिस्मो नेतम मिसाले। ज़ैस पैनी मां अस बपतिस्मो नेतम तैन इश्शे जानरो मैल दूर न केरे, पन ई अक निशान आए कि असेई परमेशरे करां माफ़ी मगोरीए ताके इश्शो मन असन परेशान न केरे। असन माफ़ी मैल्ली बटतीए किजोकि यीशु मसीह मेरतां ज़ीतो भोवरोए,

बपतिस्मो भी हुण असेई बचांदोए = परमेशरे कत्रे भले मने रे जवाबे।

(मेरे शख्सी विचार — ऐ पाणी नेई जेहड़ा बचांहदा। ऐ परमेश्वर दे अगो इक्क अच्छी अंतरात्मा दा जवाब ऐ: बपतिस्मे दी आज्ञाकारिता राहीं अंतरात्मा उप्पर लगाया गया लह, ते ओह शख्स इक्क नएं जीवन खातर जिवाल्या गया।)

2 Kings 5:10

जा, यरदन गे सत बारी न्हा --> तेरा मांस फेर आई जाणा, ते तूँ शुद्ध होई जाणा।

2 Kings 5:13

अगर नबिये तुसां जो कोई बड्डा कम्म करने जो बोलदा, त क्या तुसां ओ नि करदे? --> तां होर जादा, जिब्बू ओ बोलदा, नहा, ते साफ हो जा?

2 Kings 5:14

उसन यर्दन च सत बार डुबकी लाई --> उसदा मास फिरी छोटे बचड़े दे मास जनेह होई गा, ते उ शुद्ध होई गा।

(मेरे निजी विचार — ऐह उए सच्चाई ऐं जो बड़े पैहलें दिखाई गई थी। नामान् इक बड्डा मैन्हू थ्या, ते कोढ़ी थ्या, ते उसा गी इक छोटी गल् करने खातर बोलेआ गोआ: यरदन च जा र सत्तां बार धोआ, ते साफ हो जा। उह गुस्सा होई गोआ, ते कोई बड्डा इशारा चाहन्दा थ्या, ते समझदा थ्या जो उसदे अपने मुखे दे दरिया इस्राईल दे पाणिये कनै बेहतर न — जिस तरां लोक अजें बी अजिह्नी सादी हुकम्ते पर ठोकर खान्दे न। पर उह यरदन दा पाणी नेई थ्या जिसनें उसगी ठीक कीता; उह परमेश्वरे दे बोलणे दी मन्त्री थी, उस पाणिये च जो परमेश्वरे नां लेआ थ्या। उह उतरा ते सत्तां बार डुब्बी लाया, ते उसदी चम्म इक LITTLE CHILD दी चम्म जनुक होई गई। ऐसैं ई मैन्हू फिरी जनम् लैदा ऐ: अपणी कोई बड्डी कोशिश करियै नेई, बल्कि मन्त्री च उतरियै, ते नमां बच्चा बणी उपरां औदे, ते साफ।)

E. मरकुस 16:16 जै कोई मीं पुड़ विश्वास केरे ते बपतिस्मो ने, तैस पापां केरि सज़ाई करां मुक्ति मैलेली। पन जै कोई विश्वास न केरे, तैस अपने पापां केरि सज़ा मैलेली। [G907 baptizo ■]

जेह्रा विश्वास करदा ते बपतिस्मा लैदा --> सेह बचाया जासी।

F. यूहन्ना 3:5 यीशुए जुवाब दित्तो, “अवं तुसन सेइं सच्च-सच्च ज़ोताई कि ज़ांतगर कोई मैन्हु पैनी सेइं ते आत्माई सेइं पैदा न भोए, ते परमेशरेरे राज़े मां दाखल न भोइ सके। [G1080 gennao ■]

जद तँक केई मनँख पाणी ते आतमा तँ ना जनमे, तँ उह परमेश्वर दे राज बिँच नहीं बड़ह सकदा।

G. गलातियों 3:27 ते तुसन मरां ज़ेतेई मसीह मां अक भोनेरे लेइ बपतिस्मो नीयो, तुसेई मसीहेरी नव्वीं ज़िन्दगी तेन्चरे लाई ज़ेन्चरे लिगाड़ा लातन। [G907 baptizo ■]

जित्थे लोक मसीह मां बपतिस्मा लैते न --> उन्हां मसीह गी पैह लेआ।

H. तीतुस 3:4 पन फिर भी इश्शे मुक्ति देनेबाले परमेश्वरे असन लोकन पुड़ दया ते प्यार हिराव। (5) तैने अस इश्शे पापां केरि सज़ाई करां बचाए एल्हेरेलेइ नई कि असेई रोड़ां कम्मां कियोरां थियां, पन तैसेरे दयारे वजाई सेइं। तैन इश्शे पाप धोइतां असन नंवू जर्म दित्तू ते पवित्र आत्मा देनेरे ज़िरिये असन नव्वीं ज़िन्दगी दिती।

साढ़े उल्लारकर्ता परमेश्वरे दी कृपा ते प्यार प्रगट होया --> धार्मिकता दे कम्मां कोला नि --> उसदी दया दे मताबक उसने असां गी बचाया, नमे जन्में दे नहाणे राहरी।

I. इफिसियों 2:8 किजोकि विश्वासेरे ज़िरिये परमेश्वरे अनुग्रहे सेइं तुसन मुक्ति मैलोरीए, ते तुसेई अपनो आपे एप्पू नई बचावरो बल्के परमेश्वरे दाने सेइं तुस बचोरेथ। **[G5485 charis ■]** (9) ते भले कम्मन सेइं नई, एरू न भोए कि कोई घमण्ड केरे। (10) किजोकि अस परमेश्वरे बनोरेम; ते मसीह यीशु मां तैन भले कम्मां केरे लेइ पैदा कियोरेम, ज़ैना परमेश्वरे पेइले इश्शे केरनेरे लेइ तियार करां।

तुसां फजल कोला भरोसे दे राहरी बचाये गे हो = ऐ परमेश्वरे दी देण है --> कम्मां कोला नि, ताकि कोई शेखी नि मारे --> असां उसदी बणाई होई चीज हां, मसीह यीशु च रचे गे, नेक कम्मां आस्तै।

(मेरे निजी विचार— एह दोरां सच्चाई गी कठ्ठा रखो, ते इनगी बिच कोई लड़ाई नि। कृपा (अनुग्रह) दान ऐ; विश्वास एसगी लैदा ऐ; ते बपतिस्मा कोई एह काम नि जेहड़ा कुछ कमांदा, जियां नामान ने नदी च डुब्बी करी अपनी शिफा नि कमाई, या मरदे लोकां ने पित्तळ दे सप्प गी दिखी करी अपनी ज़िंदगी नि कमाई। परमेश्वर ने सब कुछ दित्ता; आदमी सिर्फ आज्ञा मन्त्रदा ते लैदा। पानी थमां बाहर औंदा माणुह कोल कुछ नि होंदा जिसदा उह घमंड करी सके— उह दफनाया गेआ, ते परमेश्वर ने उसगी उठाया। एह गल्ल उप्पर 1 पतरस 3:21 दे बारे च आखी गई, ते एथी बी सच्च ऐ: एह पानी नि, ते एह साढ़े हत्थां दे काम बी नि। एह कृपा ऐ, जेहड़ी विश्वास दी आज्ञाकारिता राहें लैती गई। ते अगली आयत ई दस्सी दिन्दी ऐ जे काम केहदे लेई न: मुक्ति दा आधार नि, बलके उसदा फल— असां परमेश्वर दी अपनी बणाई चीज़ां, मसीह यीशु च नमां बणाए गेआ ताकि असां उन्हां भले कम्मां च चलचैं जेहड़े उसने पैह्ले ई साढ़े लेई त्यार कीते। जेहड़ा कोई आज्ञा मन्त्रदा ऐ, उसने दान नि कमाया, ते जेहड़ा कोई एसगी कमाणा आखदा ऐ, उसने आज्ञा गी नि समझेआ।)

J. 1 तीमुथियुस 1:13 विश्वासी बन्ने करां पेइलो अवं यीशुएरे बारे मां तुहीन केरनेबालो ते विश्वासी लोकन सताने बालो, ते तैन नुकसान पुज़ाने बालो थियो। पन परमेश्वरे मीं पुड़ अपनि दया हिराई, किजोकि मीं हेजू यीशु पुड़ विश्वास न थियो कियोरो ते अवं न थियो ज्ञानतो कि कुन लोरोई केरने।

एक निन्दक + एक सतावणा + हानिकारी --> पर मिगी दया मिळी।

(मेरे निजी विचार— गौर करो कि इस आज्ञापालनै कोलो केहदे पाप धोते गेथे। तर्सुस दा शाऊल मसीह दे मार्गा जो मौत तिक सताहदा था। ओ मर्दा ज़नानिये जो पकड़ी करी कैद खाने तिक घसीड़दा था, इक निन्दक ते परमेश्वरे दी प्रजा दा सतानेआळा। प्रभु आपू ओसदे रस्ते मां ओसदे कू मिल्या, ओस जमीना पर सुट्या, ते स्वर्गा थमां ओसदे साथी बोल्या। ते फेर बी, तिन्न दिनां बाद, हनन्याह जो भेज्या गेआ के बोले: उठ, ते बपतिस्मा ले, ते प्रभु दा नां लेइयां आपणे पाप धोई सुट। जेकर दमिश्क दे रस्ते आळी ज्योत शाऊल दे पाप नई धोई सकी, पर आज्ञापालना दे पाणिये धोई सुट्टे, तां कोई बी आपणे मन्ने च ना सोचे के ओसदे आपणे पाप केहदे सोखे तरीके थमां दूर होई सकदे न परमेश्वरे नेहदे पापियां थमां बुरे पापी जो जेहदा तरीका दित्ता।)

VII. पवित्र आत्मा दा दान लैओ

A. प्रेरितां 19:5 एन शुन्तां तैनेई प्रभु यीशु मसीहरे नव्वे सेइं बपतिस्मो नीयो। (6) ते ज़ैखन पौलुसे तैन पुड़ हथ रखे त पवित्र आत्मा तैन पुड़ उतरी, त तैना अलग-अलग भाषा केरने लगे, ते भविष्यवाणी केरने लगे।

प्रभु यीशुए नामे च बपतिस्मा लिया गया --> पवित्र आत्मा उं पर आई गी।

B. रोमियो 8:9 पन ज़ैखन परमेश्वरेरो आत्मा तुसन मां बस्सते, ते तुस पापी सुभावेरे मुताबिक न चलथ बल्के पवित्र आत्मा मुताबिक चलतथ, अगर कोन्ची मां पवित्र आत्मा नई त तै मसीहरेरो मैन्हु नई।

जेकर कोई मनरा गई मसीह दा आत्मा नहीं तां ओह ओहदा नहीं छे।

C. प्रेरितां 2:39 एल्हेरेलेइ कि ए वादो तुसन त तुश्शी औलादी सेइं आए ते तैन सेब्बन सेइं ज़ैना दूर-दूर रातन, ते ज़ैन इश्शो प्रभु परमेश्वरे एप्पू कां कुजाते।”

वादो तुसां आस्तै + तुसारे बच्चों आस्तै + उन्नी सारे लोकां आस्तै जो दूर न।

D. इफिसियों 1:13 ते तुस भी मसीह सेइं शामिल भोए ज़ैखन तुसेई सच्चू वचन शुनू, ज़ै खुशखेबरां तुश्शे लेइ मुक्ति आनी, ज़ैखन तुसेई विश्वास कियो परमेश्वरे तुसन पुड़ अपनि छाप लाई, ई छाप पवित्र आत्मा आए, ज़ै तैनी असन दित्तो, ज़ेसरो वादो तैनी कियोरो थियो। (14) पवित्र आत्मा भी छुटकारेरे सैयरो ज़ेरो आए, ज़ै पक्कू केरते कि परमेश्वरे असन तै विरासत देलो ज़ेसरो तैनी वादो कियोरोए, ते तैनी अस अपने लोकां केरे रूपे मां धिनोरेम, ताके तैसेरे महिमारी बडयाई भोए।

तुसैं उस पवित्र आत्मा दे वायदे सोगी मुहर लायी गई --> जो साढ़े मीरासा दा बयाना ऐ।

E. 2 कुरिन्थियों 1:22 ज़ैने असन पुड़ छाप भी की, ते ज़ेन्चरे कोन्ची चीज़रे लेइ साई देतन तेन्चरे तैनी पेइली आत्मा इश्शे मने मां दित्ती।

ज़ैने असन पुड़ छाप भी की + ते ज़ेन्चरे कोन्ची चीज़रे लेइ साई देतन तेन्चरे तैनी पेइली आत्मा इश्शे मने मां दित्ती।

समापन

इफिसियों 4:30 ते ज़ैन किछ तुस केरथ तैसेरे वजाई सेइं परमेश्वरे पवित्र आत्मा दुखी न केरा, ज़ैस सेइं तुसन पुड़ छुटकारेरे दिहाड़रे लेइ छाप दित्तोरीए।

ते ज़ैन किछ तुस केरथ तैसेरे वजाई सेइं परमेश्वरे पवित्र आत्मा दुखी न केरा --> ज़ैस सेइं तुसन पुड़ छुटकारेरे दिहाड़रे लेइ छाप दित्तोरीए।

(म्हारे निजी विचार — पवित्र आत्मा कुछ चुण्यां लोकां आस्तै कुनी इनाम नि। सै राजा दा सील ऐ उनां पर जेहडे उंदे अपने न, ते बयाना ऐ — मीरास दा पैहला हिस्सा जेहड़ा पैहले ई दित्ता गेदा, इस गल्लै दा कि तस उंदे न जदूं तगर मुक्ति दा दिन नि औंदा। तां सवाल साफ खड़ा ऐ, ते इसजो पुच्छणा ई पौंदा: की तसां पवित्र आत्मा हासल कीता ऐ? कीजैकि बचन साफ-साफ बोलदा ऐ: जेहड़ा बी मसीह दा आत्मा नि रखदा, सै उंदा नि ऐ। सील बगैर चिट्ठी राजा दी चिट्ठी नि हुंदी। आत्मा बगैर बंदा हाल्लै मसीह दा नि होया। उसजो तोपदे रौह जिन्नी देर तगर तसां उसजो हासल नि करी लैदे।)

अभ्यास प्रश्नोत्तरी

- जेब्बे उन्हें एह सुणेया, तां उंदे दिले च चोब लगी, ते बोलदे —
 - तू कजो देर लांदा?
 - भाइयो, अस्सां क्या करचें?
 - साहबो, बचणे लेई मिगी क्या करना चाहिदा?
- पश्चाताप करो, ते तुसां चा हर इक यीशु मसीह दे नाऐं पर बपतिस्मा लैए —
 - पापें दी माफी
 - खरे अंतःकरणे दा जवाब
 - खरीदी गेदी मलकीयत दी छुडाई
- उ कम्बदा-कम्बदा आया, ते बोलेआ, स्वामियो, म्हैं कुरा करना चाहिदा जे म्हैं उद्धार पाई सकां? ते उनेंगी बोलेआ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। ते उसी रात दिया उसी घड़िया —
 - छुटकारे दे दिन तक मुहर लगायो गेआ था
 - यरदन च सत्त बारी अपने आपगी डुबाया
 - उसने ते उसदे सबनें बपतिस्मा लैता, तुरंत
- नामान यर्दन दे च्याई सत बरी डुब्बा, तां तेदा मास फिरी होई गा —
 - जिसलै ताजगी दे समां आणे
 - छोटे बच्चे दे मांहे जनेह, ते ओ शुद्ध होई गा
 - नवें जन्मे दे धोणे राहें
- इसलेई पछताओ, अते मन फिराओ —
 - ताँ जो तुहाड़े पाप मिटाए जाण
 - तुसां सारे इसी तरह नाश होई जाणा
 - दुनिया दा दुख मौत पैदा करदा ऐ
- जेकर कोई माणुS करा मसीह दा आत्मा नई होन्दा —
 - ओह छुटकारे दे दिन तक मुहर लगायो गेआ ऐ
 - उह परमेश्वर दे राजे च नई वड़ी सकदा
 - हु उसदा कोई नि
- उस्सेगी जेहे अस्सां गी प्यार कीता, ते अस्सां गी अपने पापां थमां धोइता —
 - यरदन दे पाणी च
 - अपने खुद दे खून च
 - परमेश्वर दे वचन दुआरा

जवाब कुंजी: 1-b • 2-a • 3-c • 4-b • 5-a • 6-c • 7-b

इह् अध्ययन कठे-कठे बंडा ऐ

RABBIT-TRAIL — गलातियों 3:27 ("मसीह च बपतिस्मा लैता") खुलदा ऐ अब्राहम दे बीज पर: "ते जे तुसीं मसीह दे ओ, तां तुसीं अब्राहम दा बीज, ते वादे दे अनुसार वारिस ओ" (गलातियों 3:29)।

RABBIT-TRAIL — इफिसियों 1:14 ("आत्मा दा बयाना") खुलदा ऐ मोल लई दी चीज़ दे छुटकारे पर — ओह विरासत आपू, ते ओह दिन जिसा दिन बयाना पूरा-पूरा भरेआ जांदा ऐ।

ग्रीक कीवर्ड

“विश्वास करणा” — **G4100 pisteuo** — विश्वास करना; भरोसा करना; सौंपणा

प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तां तूं बचेआ जाएगा — मन्ने च विश्वास, कोई कदम चुकने थमां पैहे।

“मान लैणा” — **G3670 homologeo** — ओहीई गल्ल करणी; खुल्लम-खुल्ला मन्ना
मुंहा कन्नी अंगीकार करने कन्ने उद्दारे ताई होंदा ऐ।

“पश्चाताप” — **G3340 metanoeo** — मन फेरणा; पछतावा करणा
शुरू करने आळी बदलाव — सिर्फ दुख नीं, बल्के परमेश्वरे खातर नोंआ बणेआ मन।

“बपतिस्मा लैणा” — **G907 baptizo** — धोणा; पाणी'च गड़ना ते फिरी उठणा
पैह्ला आज्ञाकारिता दा कम्म: उंदे सांगे दफनाए गे, ते नमीं जिन्दगी च चलणे लेई उठाए गे।

“धोत्ता” — **G3068 louo** — नहाना; सारे शरीरे जो धोणा
असां जो आपणे खूणे च असां दे पापां थमां धोत्तो।

“माफी” — **G859 aphesis** — डेसट दी व्हा; डंडट दी व्हा; भाड़ी
Yeshu Masih dee naa'n mä baptize hoyā FOR paapā de mafi khatir — beetiya hoiyā paap bhejje gaye.

“जन्म लैता” — **G1080 gennao** — जनम देणा; जनम लैणा
जदूं तगर कोई मनुक्ख पाणिए ते आत्मा कठे नी जमदा, तां ओह परमेश्वरे दे राज्ये च नी जाई सकदा।

“कृपा” — **G5485 charis** — किरपा; मुफ्त दान
तुसां अनुग्रह कन्ने बिश्वासे राहें बचाये गे ओ — ऐ परमेश्वरे दा दान ऐ।

हिब्रू मुख्य शब्द

“विश्वास किन्तो” — **H539 aman** — भरोसा करना; अटल होना; बिश्वासी होना — "आमीन" शब्दा दी जड़
अब्राहमे परमप्रभु पर बिश्वास किन्तो; ते ओसने ऐ ओसदे धार्मिकता समझैआ।

“साफ” — **H2891 taher** — साफ होणा; पवित्र होणा
धोओ, ते साफ हो जा — नामानै दा मांस फिरी इक नन्हे बच्चे दे मांसा बरगा हो गया।

“ठीक होई गा” — **H7495 rapha** — ठीक करना; पूरी तरह चंगा करना
उसदे घावें कन्ने असां ठीक होई गे।

SOURCES & CREDITS

Scripture: Bhadrawahi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).